



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)  
(सं0 पटना 125) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी0-10113/06 का0-707)  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प  
18 फरवरी 2009

श्री अनिल कुमार शर्मा, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-639/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवहर सम्प्रति अंचलाधिकारी, राजगीर, नालंदा के विरुद्ध राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एन0आर0ई0पी0) योजना संख्या-9/1988-87 रामयश राम सिंहासन सिंह, संस्कृत मध्य विद्यालय, जहॉगीरपुर के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, मामले को दबाने का प्रयास करने, उक्त योजना की राशि के गबन करने में सहयोग करने तथा सरकारी पद का दुरुपयोग संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों पर आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, शिवहर से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार श्री शर्मा को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है।

“दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंयात्मक प्रभाव से रोक”

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अनिल कुमार शर्मा, (बि0प्र0से0) सम्प्रति अंचलाधिकारी, राजगीर, नालंदा एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 125-571+10-डी0टी0पी0।